



सीईएन-01/2019

(विभिन्न एनटीपीसी स्नातक और पूर्व-स्नातक पदों की भर्ती के लिए)

कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी) के लिए सूचना - अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश

1. कंप्यूटर आधारित टंकण कौशल परीक्षा (सीबीटीएसटी) 12 अगस्त, 2022 को आयोजित होने वाली है। शहर सम्बंधी सूचना दिनांक 03.08.2022 से लाइव होगी। अभ्यर्थियों को अंग्रेजी में कम से कम 300 शब्द या हिंदी में 250 शब्द टाइप करने होंगे।
2. अभ्यर्थियों को आरआरबी वेबसाइटों पर उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में टाइप करना होगा। जिन्होंने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है उनके लिए अंग्रेजी टाइपिंग भाषा होगी। जिन अभ्यर्थियों ने टंकण परीक्षा के लिए हिंदी का विकल्प चुना है, उन्हें कृतिदेव या मंगल फ्रॉन्ट के उपयोग से परिचित होना चाहिए।
3. परीक्षा सत्र तीन भाग में होंगे अर्थात (i) की-बोर्ड को वार्म-अप और परिचित करने के लिए एक मिनट के लिए टंकण अभ्यास। (ii) 30 सेकंड का विराम और (iii) 10 मिनट के लिए टंकण परीक्षा जो मूल्यांकन के लिए लिया जाएगा।
4. चूंकि कौशल परीक्षा गति निर्धारित करने के लिए है, जो अभ्यर्थी पूरा अंश टाइप कर लेते हैं, वे परीक्षा की अवधि यानी 10 मिनट के भीतर शुरुआत से ही उस अंश को फिर से टाइप कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी 10 मिनट में कम से कम एक बार पूरे अंश को टाइप नहीं करेंगे, उन्हें अयोग्य माना जाएगा। निर्धारित समय के भीतर अंग्रेजी में 300 शब्द या हिंदी में 250 शब्द टाइप नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के प्रतिलेख का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
5. अभ्यर्थियों द्वारा टाइप किए गए प्रतिलेख का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाएगा :
गलतियों को पूर्ण गलतियों और आधी गलतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। टाइप किए गए कुल शब्दों में से 5% गलतियों को अनदेखा किया जायेगा। तदनुसार, गलतियों की कुल संख्या की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

$$\text{पूर्ण गलतियों की संख्या} + \frac{\text{आधी गलतियों की संख्या}}{2} = \text{कुल गलतियाँ}$$

$$\text{गलतियों की संख्या} - \text{टाइप किए गए शब्दों की कुल संख्या का 5\%} = \text{गलतियों की अंतिम गणना।}$$

6. अभ्यर्थी की टंकण गति की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाएगी :

$$\text{टंकण गति} = \frac{\text{टाइप किए गए कुल शब्दों की संख्या} - (\text{गलती की अंतिम गणना} \times 10)}{\text{समय}}$$

उदाहरण के लिए: यदि कोई अभ्यर्थी 10 मिनट में कुल 400 शब्द टाइप करता है और गलतियों की 10 अंतिम गणना करता है, उसकी गति इस प्रकार निकाली जाएगी:

$$\frac{400 - (10 \times 10)}{10} = \frac{300}{10} = 30 \text{ शब्द प्रति मिनट}$$

अंग्रेजी में न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

7. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। कृपया अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हों।
8. उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से विचार करके नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों के साथ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पर आधारित है और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता पर आधारित है।